



VANI COMMERCIALS LIMITED

11th February, 2023

To
The Listing Department
BSE Limited,
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street Mumbai, Maharashtra - 400001

Subject: Intimation for Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: VANI COMMERCIALS LIMITED (SCRIP CODE: 538918)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform that the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2022 adopted and approved at the meeting of Board of Directors of the Company held on **10th February, 2023** through Video Conferencing have been published on **11th February, 2023** in two newspapers, namely:

- 1. Financial Express - English (Delhi Edition)**
- 2. Jansatta- Hindi (Delhi Edition)**

The Newspaper cuttings of the above-mentioned newspapers evidencing the publication of the said Un-audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2022 are enclosed herewith for your ready reference.

This is for your information and records.

THANKING YOU,

**YOURS FAITHFULLY,
FOR VANI COMMERCIALS LIMITED**

**ISHITA AGARWAL
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
M. NO. A65528**

Encl: a/a

8. Other equity as per previous year (excluding revaluation reserves, if any)		0
9. Basic and diluted earnings per share (Face Value of INR 1 each) (In INR.)	1.23	(Not annualised)
Basic EPS	1.23	(Not annualised)
Diluted EPS	1.22	(Not annualised)

Notes

- The above consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee on February 10, 2023 and subsequently approved by the Board of Directors on February 10, 2023. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial statements for the quarter and nine months ended 31 December 2022.
- These financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standard ('Ind AS') notified under the Companies (Incorporation) Amendment Act, 2013 (read with SEBI Circular CIR/CFD/FAC/13/2015 and policies).
- The summary of the Unaudited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2022 is given below:-

Particulars	December 31, 2022	Unaudited
Total Income	341.58	
Income from operations	297.01	
Net Profit before tax	40.94	
Net Profit after tax	32.33	

Date : February 10, 2023

VANI COMMERCIALS LIMITED

Flat No. 10A, Ground floor, Pocket-QU, Pitampura, New Delhi - 110034
 Website: www.vanicommercials.com; Email: info@vanicommercials.com,
 CIN: L74899DL1988PLC106425 Ph. 011-40196434

Extract of Unaudited Financial Results for the
 Quarter ended 31st December, 2022

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	3 months ended 31.12.2022	Corresponding 3 months ended 31.12.2021	12 months ended 31.03.2022
1	Total Income from Operations	45.19	129.77	105.71
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	3.08	2.74	11.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3.08	2.74	11.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	3.08	2.74	4.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.08	2.74	4.63
6	Equity Share Capital	1174.06	1174.06	411.98
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each):			
	1. Basic (Rs.):	0.03	0.06	0.11
	2. Diluted (Rs.):	0.03	0.06	0.11

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 10th February, 2023. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.vanicommercials.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).
- The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above Results and Notes for the Quarter ended 31st December, 2022 which needs to be explained.

For Vani Commercials Limited

Sd/-

Vishal Abrol

Managing Director

DIN:06938389

Date: 10th February, 2023
Place: New Delhi

Regd. Office: Plot

ED FOOD RESEARCH & ANALYSIS CENTRE LIMITED

Office: Synthesis Business Park, CBD/1, Unit 2C/B, 2nd Floor, Action Area II,
 Rajarhat, New Town, Kolkata-700157, West Bengal

Phone: (033)-66333939, email: csefrac@efrac.org, website: www.efrac.org,

CIN: U24100WB1921PLC004311

₹ in Thousands

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022**Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2022**

PARTICULARS	QUARTERS ENDED 31-12-2022 Unaudited	Three months ended		Nine months ended		Year ended 31 March 2022 (Audited)
		December 31, 2022 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	
Income						
(a) Revenue from operations	245	66,287.16	66,932.80	2,15,722.09	1,87,881.76	2,51,618.85
(b) Other Income	9	(3,929.85)	(5,277.40)	(6,379.77)	(28,327.59)	(39,445.08)
Total Income	254	(3,929.85)	(5,277.40)	(6,343.37)	(28,609.21)	(39,577.21)
Expenses						
(a) Cost of materials consumed	245	-	-	36.40	(281.62)	(132.13)
(b) Employee benefits expense	9	-	-	-	-	-
(c) Fuel, Power and Light	21	-	-	-	-	-
(d) Finance Cost	10	3,27,903.10	3,27,903.10	3,27,903.10	3,27,903.10	3,27,903.10
(e) Depreciation and amortisation expense	10	(4,90,363.90)	(4,73,062.26)	(4,90,373.63)	(4,73,062.26)	(4,84,030.26)
(f) Other expenses	14	69,390.07	69,390.07	69,390.07	69,390.07	69,390.07
Total Expenses	264	(1,58,540.68)	(1,45,159.16)	(1,58,540.68)	(1,45,159.16)	(1,56,127.16)
Profit / (Loss) before Exceptional Items and Tax	9	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
Exceptional Items						
Profit / (Loss) before Tax	9	-	-	-	-	-
Tax expense						
- Current Tax		-	-	-	-	-
- Deferred Tax		-	-	-	-	-
Profit / (Loss) for the period from Continuing operations	18	(1.20)	(1.61)	(1.95)	(8.64)	(12.03)
Extraordinary Item						
Other Comprehensive Income						
i) items that will not be reclassified to Profit & Loss Account						
ii) items that will be reclassified to Profit & Loss Account						
Total Comprehensive Income for the period	18	1.26	1.17	1.30	0.98	0.97
Paid-up equity share capital	42	0.83	0.77	0.91	0.58	0.56
(Face Value : Rs.10/- per share)						
Earnings per share (Face value of Rs.10/- each)						
(a) Basic						
(b) Diluted						

NOTES:

- The above results have been approved in the Board of Directors of the Company at their respective meetings, held on February 10, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

the quarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings, held on February 10, 2023. The detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.efrac.org). The Limited Review, as referred in the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com.

On behalf of the Board of Directors
Edward Food Research & Analysis Centre Limited

CIN: U24100WB1921PLC004311

